



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1807]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2008/पौष 3, 1930

No. 1807]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2008/PAUSA 3, 1930

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2970(अ).—केंद्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 12, तारीख 29 दिसम्बर, जो भारत के राजपत्र, साप्ताहिक, भाग-II, खंड 3 उप-खंड (ii) तारीख 31 दिसम्बर, 2006 से 06 जनवरी, 2007 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में 230.166 हेक्टर (लगभग) या 5708.42 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना के माध्यम से धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित सम्पूर्ण भूमि में कोयला अभिप्राप्य है;

और उक्त भूमि की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 दिसम्बर, 2008 से आरंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को, ऐसी अवधि को विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केंद्रीय सरकार नीचे अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उक्त भूमि को या ऐसी भूमि में अथवा उस पर के किसी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी।

अनुसूची
राई पूर्व और राई पश्चिम ब्लाक
मांड रायगढ़ कोलफील्ड्स
जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

योजना संख्या- एसईसीएल/बीएसपी/जीएम/भूमि/308 तारीख 29 अगस्त, 2006 (पूर्वक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शाते हुए)।

(क) राजस्व भूमि

क्र.सं.	ग्राम का नाम	हल्का संख्या	बंदोबस्त संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्ट. में	टिप्पणियां
1	बरोद	16	199	घरघोडा	रायगढ़	731.107	भाग
2	पोरडी	16	193	घरघोडा	रायगढ़	183.351	सम्पूर्ण
3	बिजारी	26	228	घरघोडा	रायगढ़	057.013	भाग
4	कुर्मीभावना	27	221	घरघोडा	रायगढ़	338.863	भाग
5	पोरडा	27	192	घरघोडा	रायगढ़	626.448	भाग
6	कांटाझरिया	27	57	घरघोडा	रायगढ़	60.474	भाग
7	कठरापाली	27	19	घरघोडा	रायगढ़	252.910	भाग
योग: 2250.166 हेक्टेयर							

(ख) वन भूमि

क्र.सं.	वन का नाम	वन का किस्म	रेज	डिवीजन	क्षेत्र हेक्ट. में	टिप्पणी
1	राईआरक्षित वन	आरक्षित वन	घरघोडा	रायगढ़	60.000	भाग
				योग	60.000 हेक्टेयर	
कुल योग: (क+ख)=2250.166 + 60.000=2310.166 हेक्टेयर (लगभग)या 5708.42एकड़ (लगभग)						

सीमा वर्णन:

- क-ख रेखा कुरकेट नदी की ओर ग्राम बरोद की सम्मिलित सीमा पर 'क' बिंदु से आरंभ होती है और ग्राम करौद, पोरडी की उत्तरी सीमा के साथ होते हुए जाती है उसके पश्चात आरक्षित वन से गुजरती हुई 'घ' बिंदु पर मिलती है।
- घ-ड च रेखा ग्राम कांटाझरिया, कठरापाली से होते हुए जाती है और 'च' बिंदु पर मिलती है।
- च-छ रेखा ग्राम कठरापाली, पोरडा की दक्षिणी सीमा से होते हुए जाती है तब भागतः ग्राम पोरडा की पश्चिम सीमा से होते हुए जाती है तथा 'छ' बिंदु पर मिलती है।
- छ-ज-झ रेखा, ग्राम पोरडा, बिजारी, कुर्मीभावना से, बाद में भागतः ग्राम कुर्मीभावना की पश्चिमी सीमा से गुजरती हुई 'झ' बिंदु पर मिलती है।
- झ-अ-क रेखा ग्राम बरोद से, बाद में कुरकेट नदी की पूर्वी सीमा से गुजरती हुई आरंभिक 'क' बिंदु पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/10/2006-पीआरआईडब्ल्यू-1]

सूरज प्रकाश सेठ, विशेष सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2008

S.O. 2970(E).—Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 12 dated the 29th day of December, 2006, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Weekly, Part-II, section 3, sub-section (ii) dated the 31st day of December, 2006 to 6th day of January, 2007, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 2310.166 hectares (approximately) or 5708.42 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended thereto;

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the whole of the land notified under sub-section (1) of section 4 through the said notification;

And whereas, in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act, has been given;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 29th December, 2008, as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands, as specified in the Schedule below, or any rights in or over such lands.

SCHEDULE

Rai East and Rai West Block

Mand Raigarh Coalfields, District Raigarh (Chhattisgarh)

Plan No. SECL/BSP/GM(Plg)/ Land/ 307 dated the 29th day of August, 2006 (Showing the land notified for prospecting)

A. Revenue Land:

Serial number	Name of Village	Halka number	Settlement number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Baroud	16	199	Gharghoda	Raigarh	731.107	Part
2.	Pordi	16	193	Gharghoda	Raigarh	183.351	Full
3.	Bijari	26	228	Gharghoda	Raigarh	57.013	Part
4.	Kurmibhauna	27	221	Gharghoda	Raigarh	338.863	Part
5.	Porda	27	192	Gharghoda	Raigarh	626.448	Part
6.	Kantajharia	27	57	Gharghoda	Raigarh	60.474	Part
7.	Katharrapali	27	19	Gharghoda	Raigarh	252.910	Part
Total:- 2250.166 hectares							

B. Forest Land:

Serial number	Name of forest	Type of forest	Range	Division	Area in hectares	Remarks
1.	Rai reserved forest	Reserved forest	Gharghoda	Raigarh	60.000	Part
Total:- 60.000 hectares						

Grant Total (A+B) 2250.166 + 60.000 = 2310.166 hectares (approximately) or 5708.42 acres (approximately)

Boundary description:-

- A-B-C-D Line starts from point 'A' on the common boundary of Kurket river and village Baroud and passes along the northern boundary of village Baroud, Pordi then through reserved forest and meets at point 'D';
- D-E-F Line passes through village Kantajharia, Katharrapali and meets at point 'F';
- F-G Line passes along the southern boundary of village Katharrapali, Porda, then partly western boundary of village Porda and meets at point 'G';
- G-H-I Line passes through village Porda, Bijari, Kurmibhauna, then partly along western boundary of village Kurmibhauna and meets at point 'I';
- I-J-A Line passes through village Baroud then along eastern boundary of Kurket river and meets at the starting point 'A'.

[F. No. 43015/10/2006-PRIW-I]

S. P. SETH, Special Secy.